



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 16 मार्च, 2022

फाल्गुन 25, 1943 शक सम्वत्

### ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN,  
ASHOKA ROAD,  
NEW DELHI-110001

16<sup>th</sup> March, 2022,

Dated : \_\_\_\_\_  
Phalgun 25, 1943 (Saka),

#### NOTIFICATION

No. 322/UP-LC-LAC/2022: - Whereas, the elections to Uttar Pradesh (UP) Legislative Council (LC) from 35 Local Authorities' Constituencies (LACs) for 36 seats due to fall vacant on 07.03.2022 on the retirement of the sitting members, were announced by the Commission *vide* its Press Note No. ECI/PN/13/2022 dated 28.01.2022. The said elections were to be conducted in 2 phases with scheduled poll dates of 3<sup>rd</sup> March for 29 constituencies of Phase-I & 7<sup>th</sup> March 2022 for 06 constituencies of Phase-II, keeping in view the schedule of the then ongoing General Elections to Legislative Assembly in the State, being conducted in 07 phases; and

2. Whereas, as scheduled, the notification no. 322/UP-LC-LAC/2022, calling upon the 29 Local Authorities' Constituencies as in Annexure-'A' for Phase I of the said elections was notified on 04.02.2022; and

3. Whereas, the Commission had on 06.02.2022 *vide* notification no. 322/UP-LC-LAC/2022 amended the notification dated 04.02.2022 (mentioned in Para 2 above) for 29 constituencies of Phase-I of election in following terms:-

".....(a) In respect of the 29 Constituencies notified on 04.02.2022, the process of filing of nomination has been suspended w.e.f. 07.02.2022. It shall restart on 15.03.2022 as specified below:-

(i) 15<sup>th</sup> March, 2022 (Tuesday), as the restarting date of making nominations

- (ii) 19<sup>th</sup> March, 2022 (Saturday), as the last date for making nominations
- (iii) 21<sup>st</sup> March, 2022 (Monday), as the date for scrutiny of nominations
- (iv) 23<sup>rd</sup> March, 2022 (Wednesday), as the last date for withdrawal of candidatures
- (v) 09<sup>th</sup> April, 2022 (Saturday), as the date on which polls, if necessary, shall be taken
- (vi) 16<sup>th</sup> April, 2022 (Saturday), as the date before which election shall be completed.

(b) It is clarified that the nomination papers that may have been filed in respect of any of the above mentioned constituencies on 4<sup>th</sup> & 5<sup>th</sup> of February, 2022 shall also be taken up along with other nomination papers that may be filed from 15.03.2022 to 19.03.2022.”; and

4. Whereas, the Commission *vide* notification no. 322/UP-LC-LAC/2022 dated 15<sup>th</sup> March, 2022 has notified the election to the Six Local Authorities’ Constituencies (Annexure-B) of Phase-II of said biennial election; and

5. Whereas, as per the information received through the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* its letter dated 16.03.2022, the Government of Uttar Pradesh *vide* order dated 16.03.2022 has declared 19.03.2022 (Saturday) a public holiday under Negotiable Instruments Act, 1881, which is the last date of making nominations in respect of Phase-I election; and

6. Whereas, Section 30(a) of the Representation of the People Act, 1951, provides that “the last date for making nominations, which shall be the (seventh day) after the date of publication of the first-mentioned notification or, if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;” and

Section 30(b) of the Act, *iter-alia* mandates that “the date for the scrutiny of nominations, which shall be (the day immediately following) the last date for making nominations or, ....” and

Section 30(c) of the Act, *iter-alia* mandates that the last date for the withdrawal of candidatures, which shall be (the second day) after the date for the scrutiny of nominations or, .....”; and

7. Whereas, the declaration of the 19<sup>th</sup> March, 2022 as a public holiday under the Negotiable Instruments Act, 1881 necessitates the amendments to the notification of 06.02.2022, as per Section 30(a), 30(b) and 30(c) of the Representation of the People Act, 1951 as mentioned in para 6 above;

8. Now, therefore, the Commission in exercise of powers under Section 153 of the Representation of the People Act, 1951, makes the amendments to the notification No. 322/UP-LC-LAC/2022, dated 06.02.2022 with reference to the Constituencies mentioned in Annexure-A as under:-

(a) The schedule in respect of the 29 Constituencies notified on 04.02.2022, for which the process of filing of nomination had been suspended w.e.f. 07.02.2022 and restarted on 15.03.2022, shall be modified in following terms:-

- (i) the 21<sup>st</sup> March, 2022 (Monday), as the last date for making nominations
- (ii) the 22<sup>nd</sup> March, 2022 (Tuesday), as the date for scrutiny of nominations

- (iii) the 24<sup>th</sup> March, 2022 (Thursday), as the last date for withdrawal of candidatures.
- (iv) 09<sup>th</sup> April, 2022 (Saturday), as the date on which polls, if necessary, shall be taken.
- (v) 16<sup>th</sup> April, 2022 (Saturday), as the date before which election shall be completed.
- (b) It is clarified that the nomination papers that may have been filed in respect of any of the above-mentioned constituencies on 4<sup>th</sup> & 5<sup>th</sup> of February, 2022 shall also be taken up along with other nomination papers that may be filed from 15.03.2022 to 21.03.2022.

By order,  
SUMAN KUMAR DAS,  
*Secretary.*

---

By order,  
AJAY KUMAR SHUKLA,  
*Secretary.*

## ANNEXURE-'A'

NAME OF LOCAL AUTHORITIES' CONSTITUENCIES
1. Moradabad-Bijnor Local Authorities'
2. Rampur-Bareilly Local Authorities'
3. Budaun Local Authorities'
4. Pilibhit-Shahjahanpur Local Authorities'
5. Hardoi Local Authorities'
6. Kheri Local Authorities'
7. Sitapur Local Authorities'
8. Lucknow-Unnao Local Authorities'
9. Rae-Bareilly Local Authorities'
10. Pratapgarh Local Authorities'
11. Sultanpur Local Authorities'
12. Barabanki Local Authorities'
13. Bahraich Local Authorities'
14. Azamgarh-Mau Local Authorities'
15. Ghazipur Local Authorities'
16. Jaunpur Local Authorities'
17. Varanasi Local Authorities'
18. Mirzapur-Sonbhadra Local Authorities'
19. Allahabad Local Authorities'
20. Banda-Hamirpur Local Authorities'
21. Jhansi-Jalaun-Lalitpur Local Authorities'
22. Kanpur-Fatehpur Local Authorities'
23. Etawah-Farrukhabad Local Authorities'
24. Agra-Firozabad Local Authorities'
25. Mathura-Etah-Mainpuri Local Authorities'
26. Aligarh Local Authorities'
27. Bulandshahr Local Authorities'
28. Meerut-Ghaziabad Local Authorities'
29. Muzaffarnagar-Saharanpur Local Authorities'

## ANNEXURE-'B'

NAME OF LOCAL AUTHORITIES' CONSTITUENCIES	
1.	Gonda Local Authority
2.	Faizabad Local Authority
3.	Basti-Siddharth Nagar Local Authority
4.	Gorakhpur-Maharajganj Local Authority
5.	Deoria Local Authority
6.	Ballia Local Authority

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,

अशोक रोड,

नई दिल्ली-110001

16 मार्च, 2022

दिनांक : \_\_\_\_\_

फाल्गुन 25, 1943 (शक)

### अधिसूचना

सं. 322/उ.प्र.-वि.प.-स्था.प्रा./2022:- यतः, आयोग द्वारा अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/13/2022 दिनांक 28.01.2022 के जरिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 35 स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्रों से 36 सीटों, जो आसीन सदस्यों की सेवानिवृत्ति पर 07.03.2022 को रिक्त होने के लिए नियत हैं, के लिए निर्वाचनों की घोषणा की गई थी। राज्य में विधान सभा के लिए तत्समय चल रहे साधारण निर्वाचन, जो 07 चरणों में संचालित किए जा रहे थे, के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए उक्त निर्वाचन 2 चरणों में, प्रथम चरण के 29 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 3 मार्च, 2022 की और द्वितीय चरण के 06 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 7 मार्च, 2022 की मतदान तिथियों के साथ, संचालित किए जाने थे; और

2. यतः जैसा कि निर्धारित किया गया था, अधिसूचना सं. 322/उ.प्र.-वि.प.-स्था.प्रा./2022, जिसमें उक्त निर्वाचनों के चरण-I के लिए संलग्नक-क' के अनुसार 29 स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्रों से अपेक्षा की गई थी, दिनांक 04.02.2022 को अधिसूचित की गई थी; और

3. यतः आयोग ने दिनांक 06.02.2022 को अधिसूचना सं. 322/उ.प्र.-वि.प.-स्था.प्रा./2022 के जरिए प्रथम चरण के निर्वाचन के 29 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अधिसूचना दिनांक 04.02.2022 में निम्न प्रकार से संशोधन किया था :-

"....(क) दिनांक 04.02.2022 को अधिसूचित 29 निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में, नाम-निर्देशन दाखिल करने की प्रक्रिया 07.02.2022 से निलंबित कर दी गई है। यह 15.03.2022 को पुनः शुरू होगी जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया है :-

- (i) 15 मार्च, 2022 (मंगलवार), नाम-निर्देशन किया जाना पुनः शुरू करने की तिथि के रूप में
- (ii) 19 मार्च, 2022 (शनिवार), नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि के रूप में
- (iii) 21 मार्च, 2022 (सोमवार), नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने की तिथि के रूप में
- (iv) 23 मार्च, 2022 (बुधवार), अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि के रूप में
- (v) 09 अप्रैल, 2022 (शनिवार), उस तिथि के रूप में जब, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान कराया जाएगा
- (vi) 16 अप्रैल, 2022 (शनिवार), उस तिथि के रूप में जिसके पहले निर्वाचन संपन्न किया जाएगा

(ख) यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में जो भी नाम-निर्देशन पत्र 04 और 05 फरवरी, 2022 को भरे गए होंगे उन पर भी ऐसे अन्य नाम-निर्देशन पत्रों के साथ विचार किया जाएगा जो 15.03.2022 से 19.03.2022 तक भरे जा सकते हैं"; और

4. यतः, आयोग ने अधिसूचना सं. 322/उ.प्र.-वि.प.-स्था.प्रा./2022 दिनांक 15.03.2022 के जरिए उक्त द्विवार्षिक निर्वाचन के चरण-II के लिए छः स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्रों (संलग्नक-'ख') के निर्वाचन को अधिसूचित किया है; और

5. यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 16.03.2022 के माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिनांक 16.03.2022 के जरिए दिनांक 19.03.2022

(शनिवार) को, जो प्रथम चरण के निर्वाचन के संबंध में नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि है, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है; और

6. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 (क) में उपबंध किया गया है कि नामनिर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख जो प्रथम वर्णित अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् वाले (सातवें दिन) की होगी या यदि वह दिन लोक अवकाश दिन है तो निकटतम उत्तरवर्ती ऐसे दिन की होगी जो लोक अवकाश नहीं है; और

अधिनियम की धारा 30(ख), अन्य बातों के साथ-साथ, यह अधिदेशित करती है कि नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख जो नामनिर्देशन करने के लिए नियत अंतिम तारीख के (अव्यवहित आगामी दिन) की होगी या ....और

अधिनियम की धारा 30(ग), अन्य बातों के साथ-साथ, यह अधिदेशित करती है कि अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए नियत अंतिम तारीख, जो नामनिर्देशनों की संवीक्षा के लिए नियत तारीख के पश्चात् (दूसरे दिन) की होगी या...; और

7. यतः, 19 मार्च, 2022 को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया जाना यह आवश्यक बनाता है कि ऊपर पैरा 6 में वर्णित किए गए अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30(क), 30(ख) और 30(ग) के अनुसार दिनांक 06.02.2022 की अधिसूचना में संशोधन किए जाएं;

8. अतः, अब, आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 153 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'संलग्नक-क' में उल्लिखित निर्वाचन क्षेत्रों के संदर्भ में अधिसूचना सं. 322/उ.प्र.-वि.प.-स्था.प्रा./2022, दिनांक 06.02.2022 में निम्नलिखित के अनुसार संशोधन करता है:-

(क) दिनांक 04.02.2022 को अधिसूचित 29 निर्वाचन क्षेत्रों, जिनके लिए नाम-निर्देशन दाखिल करने की प्रक्रिया 07.02.2022 से निलंबित कर दी गई थी और जो 15.03.2022 को पुनः शुरू हो गई है, के संबंध में कार्यक्रम निम्नानुसार आशोधित किया जायेगा:

- (i) 21 मार्च, 2022 (सोमवार), नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि के रूप में
- (ii) 22 मार्च, 2022 (मंगलवार), नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने की तिथि के रूप में
- (iii) 24 मार्च, 2022 (गुरुवार), अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि के रूप में
- (v) 09 अप्रैल, 2022 (शनिवार), उस तिथि के रूप में जब, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान कराया जाएगा
- (vi) 16 अप्रैल, 2022 (शनिवार), उस तिथि के रूप में जिसके पहले निर्वाचन संपन्न किया जाएगा

(ख) यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में जो भी नाम-निर्देशन पत्र 4 और 5 फरवरी, 2022 को भरे गए होंगे उन पर भी ऐसे अन्य नाम-निर्देशन पत्रों के साथ विचार किया जाएगा जो 15.03.2022 से 21.03.2022 तक भरे जा सकते हैं।

आदेश से,

सुमन कुमार दास,  
सचिव।

-----

आज्ञा से,  
अजय कुमार शुक्ला,  
सचिव।

स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र का नाम
1. मुरादाबाद-बिजनौर स्थानीय प्राधिकारी
2. रामपुर-बरेली स्थानीय प्राधिकारी
3. बदायूँ स्थानीय प्राधिकारी
4. पीलीभीत-शाहजहांपुर स्थानीय प्राधिकारी
5. हरदोई स्थानीय प्राधिकारी
6. खीरी स्थानीय प्राधिकारी
7. सीतापुर स्थानीय प्राधिकारी
8. लखनऊ-ऊन्नाव स्थानीय प्राधिकारी
9. रायबरेली स्थानीय प्राधिकारी
10. प्रतापगढ़ स्थानीय प्राधिकारी
11. सुल्तानपुर स्थानीय प्राधिकारी
12. बाराबंकी स्थानीय प्राधिकारी
13. बहराइच स्थानीय प्राधिकारी
14. आजमगढ़-मऊ स्थानीय प्राधिकारी
15. गाजीपुर स्थानीय प्राधिकारी
16. जौनपुर स्थानीय प्राधिकारी
17. वाराणसी स्थानीय प्राधिकारी
18. मिर्जापुर-सोनभद्र स्थानीय प्राधिकारी
19. इलाहाबाद स्थानीय प्राधिकारी
20. बांदा-हमीरपुर स्थानीय प्राधिकारी
21. झांसी-जालौन-ललितपुर स्थानीय प्राधिकारी
22. कानपुर-फतेहपुर स्थानीय प्राधिकारी
23. इटावा-फर्रुखाबाद स्थानीय प्राधिकारी
24. आगरा-फिरोजाबाद स्थानीय प्राधिकारी
25. मथुरा-एटा-मैनपुरी स्थानीय प्राधिकारी
26. अलीगढ़ स्थानीय प्राधिकारी
27. बुलन्दशहर स्थानीय प्राधिकारी
28. मेरठ-गाजियाबाद स्थानीय प्राधिकारी
29. मुजफ्फरनगर-सहारनपुर स्थानीय प्राधिकारी



## संलग्नक-ख

स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र का नाम
1. गोण्डा स्थानीय प्राधिकारी
2. फैजाबाद स्थानीय प्राधिकारी
3. बस्ती-सिद्धार्थनगर स्थानीय प्राधिकारी
4. गोरखपुर-महराजगंज स्थानीय प्राधिकारी
5. देवरिया स्थानीय प्राधिकारी
6. बलिया स्थानीय प्राधिकारी

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 642 राजपत्र-2022-(1572)-588 प्रतियां-(कम्प्यू0/टी0/आफसेट)।  
 पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 213 सा0 निर्वाचन-2022-(1573)-200 प्रतियां-(कम्प्यू0/टी0/आफसेट)।